

HB LEASING AND FINANCE CO. LTD.

Regd. Office: Plot No.31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurgaon -122001 (Haryana) Ph.: 0124-4675500, Fax: 0124-4370985, E-mail: corporate@hbleasing.com Website: www.hbleasing.com, CIN No. L65910HR1982PLC034071

12th September, 2020

Listing Centre

The Listing Department BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai – 400001

Company Code: 508956

Subject: - Newspaper Publication
(Un-Audited Financial Results for the first quarter ended 30.06.2020)

Dear Sir / Madam,

Please find attached copy of Newspaper Publication of the Extract of Un-Audited Financial Results for the first quarter ended 30th June, 2020 duly published by the Company in Business Standard (English & Hindi Edition) on Saturday, 12th September, 2020 pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Copy of the said publication is also available on the website of the Company, www.hbleasing.com.

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours truly,

For HB Leasing and Finance Company Limited

SONALI SHARMA

(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As above

Adani Green eyes \$1.8 bn from 10 foreign banks

New Delhi, 11 September

dani Green Energy (AGEL) is looking to tie up with 10 foreign banks to avail of greenfield funding for its under construction assets.

The company will raise \$1.8 billion for the under construction and contracted portfolio of 12 Gw, which includes the country's first manufacturing-linked solar power plant of 8 Gw.

In a post results call, AGEL Managing Director and Chief Executive Vneet S Jaain said the firm's total renewable portfolio stood at 14.6 Gw, of which 2.6 Gw had been commissioned. "AGEL is in the process of tie-up of \$1.8 billion facility to fund the under construction pipeline," said Jaain.

The company reported a profit before tax of ₹51.27 crore during the first quarter of FY21 ended June, against loss of ₹131.24 crore during the year-ago period. The total

worth ₹516 crore

Max group founder Analiit Singh (pictured) along with

Max Ventures Investment Holdings on Friday sold

shares worth ₹516 crore of Max

Healthcare, a listed company

sold his entire stake of 0.64

per cent stake worth ₹64.41

crore in Max Healthcare,

which, according to Friday's closing price, has a market capitalisation of ₹11,877 crore.

Both the deals were done at a price of ₹111 per share. On the

BSE, Max Healthcare shares

closed 17.44 per cent higher at

As per zaubacorp.com, the

directors of Max Ventures

include Bishwajit Das, Analjit

Singh, Piya Singh, Arvind

Aggarwal, and Sanjiv Malik. Max Ventures, which held

₹131.30 on Friday over the previous day's price of ₹111.80.

According to the bulk deals data of exchanges, Singh

of the group.



income of the company in the first quarter increased to ₹878.14, from ₹675.23 crore in the same period last year.

Responding on the funding plans of the company, AGEL Executive Director Sagar Adani said: "We take construction financing from Indian banks and once they are operational we refinance that portfolio with international bond funding. Going ahead, given the size and scale ahead of us, in addition to the Indian banks, we would have 10 international banks which are going to work

ing." He said this would help the company diversify its construction financial portfolio, and all projects would be fully funded at the time of construction.

Adani said the tie-up with the international banks would be a revolving construction facility. "As soon as projects are commissioned, they would be taken out from the international bond market and this facility would again be made available for the next tranche of assets," he said adding that the debt to Ebitda ratio of the company would come down to 5.5 from around 6 currently.

AGEL, in its statement on the BSE, said Adani Green Energy had progressed to become the largest solar power producer in the world, having won the world's largest solar bid of 8 Gw. "With this, we have moved closer to our goal of commissioning renewable capacity of 25 Gw by 2025," said the

Adani defence arm acquires 51% stake in **PLR System**

Adani Enterprises on Friday announced its subsidiary, Adani Land Defence Systems and Technologies, had acquired a majority stake in PLR Systems, a defence equipment maker.

In a statement to the BSE, the firm said its step down subsidiary had acquired 51 per cent equity shares of PLR Systems from Fouraces Systems. The transaction has was completed by way of a cash transaction with one of the existing shareholders of PLR Systems, the company said.

On the size of the company, the statement said, PLR Systems authorised share capital is ₹13 crore and paidup share capital stands at ₹12.04 crore.

BS REPORTER

For Multi Commodity Exchange of India Ltd.

Authorised Signatory – Membership Department

Clearing Corporation Ltd.

Analjit Singh, Max Ventures Mahindra sell Max Healthcare shares

11.35 per cent stake in Max Healthcare at the end of June

2020, sold 4.5 per cent stake

worth ₹451.10 crore in the

stake sold by Singh and Max

Ventures, Smallcap World

Fund Inc bought 2.6 per cent and WF Asian Recon-

naissance Fund purchased 0.9

per cent, together valued at

BS REPORTER

Of the total 5.1 per cent

company.

III Manulife MUTUAL FUND

MAHINDRA MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Corporate Identity Number: U65900MH2013PTC244758 Registered Office: "A"Wing, 4th Floor, Mahindra Towers, Dr. G.M Bhosale Marg, P.K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai 400 018 Corporate Office: 1st Floor, Sadhana House, 570, P.B Marg, Worli, Mumbai - 400 018

Tel: 1800 4196244; website: www.mahindramanulife.com; email id: mfinvestors@mahindra.com

NOTICE - CUM -ADDENDUM NO. 35/2020

THIS NOTICE - CUM - ADDENDUM SETS OUT CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI), SCHEME INFORMATION DOCUMENT(SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF THE SCHEMES OF MAHINDRA MANULIFE **MUTUAL FUND (FUND)**

Change in the address of Official Point of Acceptance of Transactions ('OPATs') for the schemes of the Fund

Investors/Unit holders are advised to take note of the change in the address of the following Investor Service Centre of Computer Age Management Services Limited (the Registrar and Transfer Agent to the schemes of the Fund) which is the OPAT for the schemes of the Fund.

State	Old Location Address	New Location Address	Effective Date	
Punjab	SCO - 18 J, 'C' Block Ranjit Avenue, Amritsar - 140001	3rd Floor Bearing Unit no- 313, Mukut House, Amritsar – 143001	September 21, 2020	

This notice-cum- addendum shall form an integral part of the SAI / SID / KIM of the scheme(s) of the Fund as

All other terms and conditions of the SAI/SIDs and KIMs of the schemes the Fund will remain unchanged

For Mahindra Manulife Investment Management Private Limited (Formerly known as Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.)

Place: Mumbai Date: September 11, 2020 **Authorised Signatory**

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Chiratae lines up a dozen investments this year



Chiratae Ventures

SAMREEN AHMAD Bengaluru, 11 September

Chiratae Ventures, formerly known as IDG Ventures India, has started rolling out investments from its fourth fund and will be betting on up to 10-14 start-ups in the current financial year. Of this, the venture capital firm has already made investments in eight firms so far this year.

The VC fund will be pumping between \$500,000 and \$7 million in these start-ups in the first cheque. It will be investing broadly in 30-40 firms from the fourth fund in a couple of years. Fund IV, which will be in

the range of \$200 million, has seen commitments from the UK's impact investor CDC Group Washington-based World Bank's investment firm International Finance Corporation (IFC). While CDC group will be putting in \$10 million in Fund IV, IFC had last year revealed that it will pump \$20 million in the fund.

Apart from focusing on core areas of technology, Chiratae is also scouting for opportunities in the edtech and egaming segments that have been provided massive tailwinds by the Covid-19 lockdown. "There are several pockets which are unexplored or underexplored in these segments. In the edtech space, we are looking at early learning and certain types of exam preparations or job related platforms outside of IITs and medical," said Karan Mohla, partner, Chiratae Ventures. The fund which has stalwarts such as Ratan Tata and Kris Gopalarishnan as advisors on its board.



Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi -110066 CIN: L74999DL2003GOI118633, Email:investors@rvnl.org

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020 (Rs. in Lakhs except EPS)

		Standalone				Consolidated			
SI.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	ed Quarter Ended		d	Year Ended	
No.		30.06.2020		30.06.2019		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Revenue from Operations	2,91,082.99	4,22,067.49	2,84,564.15	14,53,057.97	2,91,082.99	4,22,067.49	2,84,564.15	14,53,057.97
2.	Other Income	5,595.03	5,657.92	5,267.99	26,557.86	5,597.05	5,661.33	5,270.75	24,568.45
3.	Total Income	2,96,678.02	4,27,725.41	2,89,832.14	14,79,615.83	2,96,680.04	4,27,728.82	2,89,834.90	14,77,626.42
4.	Profit/(Loss) (Before Tax)	18,169.01	24,875.07	19,618.95	99,084.03	17,952.74	29,879.23	22,830.75	95,431.66
5.	Net Profit/(Loss) for the period) *	14,315.22	19,730.31	15,004.11	78,985.97	14,098.59	24,734.15	18,215.41	75,332.27
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive profit/(loss) and other comprehensive income for the period)	14,291.98	19,568.36	14,863.07	78,781.02	14,075.35	24,572.88	18,074.37	75,128.00
7.	Equity Share Capital	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01
8.	Other Equity	-	-	-	2,41,474.58	-	-	-	3,03,087.91
9.	Earnings per share (EPS)								
	Basic	0.69	0.95	0.72	3.79	0.68	1.19	0.87	3.61
	Diluted	0.69	0.95	0.72	3.79	0.68	1.19	0.87	3.61

There was no exceptional item during the period

Place: New Delhi

Dated: 11.09.2020

Note: 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11.09.2020. As required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Statutory Auditors have conducted a limited review of the above financial results for the quarter ended 30th June, 2020.

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

The above statement includes results for the quarter ended 31st March, 2020 being the balancing figure between audited figures in respect of full financial year and year to date unaudited figures up to the third quarter of the relevant financial year.

The above statement is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The complete format of the Financial Results is available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on Company's website www.rvnl.org.

For and on behalf of the Board of Directors

Pradeep Gaur Chairman & Managing Director DIN:07243986



MCXCCL

Multi Commodity Exchange of Clearing Corporation Ltd.

Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400 093

NOTICE

NOTICE is hereby given that Jindal Futures Private Limited Member of MCX & MCXCCL, having Member ID - 12165 and SEBI Registration No. INZ000010637 has requested for the surrender of its Membership of MCX & MCXCCL.

Any client(s)/constituent(s) of the above Member, having any claim/dispute/complaint against the Member, arising out of the transactions executed on MCX platform, may lodge their claim within 60 days of this notification, failing which, it shall be deemed that no claim exist against the above referred Member or such claim, if any, shall be deemed to have been waived. The complaints so lodged will be dealt with in accordance with the Bye-Laws, Rules and Business Rules/Regulations of the MCX & MCXCCL.

The Client(s)/Constituent(s) may submit their claim on the online portal of the Exchange (https://igrs.mcxindia.com) or provide "Client Complaint Form" (available at www.mcxindia.com) in hard copy to Investor Services Department, Multi Commodity Exchange of India Ltd., Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093 or email it at grievance@mcxindia.com

Upon surrender of Membership, the Authorised Person(s) (APs), if any, registered through this Member shall also cease to exist and therefore, such APs are not authorized henceforth to deal in

For Multi Commodity Exchange of

Authorised Signatory - Membership Department

Date: September 11, 2020 Place: Mumbai

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED CIN: L65910HR1982PLC034071

Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana Phone: + 91-124-4675500, Fax: + 91-124-4370985

	(Rs. In Lak							
S. No.	Particulars	Quarter ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended				
		30/06/2020	30/06/2019	31/03/20				
		Un-Audited	Un-Audited	Audite				
1.	Total Income from Operations (net)	5.00	-	30.				
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	(3.00)	(9.79)	(1.1				
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(3.00)	(9.79)	(1.1				
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(3.00)	(9.84)	(1.3				
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(3.00)	(9.82)	(1.9				
6.	Equity Share Capital	1100.41	1100.41	1100.				
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	NA	NA	(888.3				
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)							
	Basic: Diluted:	(0.03) (0.03)	(0.09) (0.09)	(0.0) (0.0)				

(I) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of BSE Limited (BSE), www.bseindia.com Company's website, www.hbleasing.com

The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 11th September, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting held on the same date

For HB Leasing and Finance Company Limite

ANIL GOYAL Place : Gurugran (Managing Director) DIN: 00001938 Date : 11/09/2020

Government of Union Territory Jammu & Kashmir OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MECHANICAL HOSPITAL AND **CENTRAL HEATING DIVISION SRINAGAR** Telefax:- 0194-2496089, Email ID:- xenmhchdk@yahoo.in Gist of e-tender

Dated: 10.09.2020

E-tenders are invited from Original Equipment Manufacturers or their Authorized dealers/ Representatives for the below mentioned work:

Name of Work	Est. Cost (Rs. in Lacs)	Cost of T/Doc. (In rupees)	Earnest Money (Lacs of Rs)	Time of completion (in months)	Position of AAA/funds
1	2	3	4	5	6
Turnkey package for Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning of 1000 LPM PSA technology based Oxygen Generating Plants with operation/Maintenance for Three years at Govt. Super speciality Hospital, Srinagar	103	3000	3.70	04 months	Available

1. Downloading of Bids:- The NIT Consisting of qualifying information, eligibility criteria, specifications, Bill of quantities (B.O.Q), Set of terms and conditions of contract and other details can be seen from the departmental website www.jktenders.gov.in from 10.09.2020 (18.00 hrs) and can be downloaded from 10.09.2020 (18.00

Pre Bid Meeting: Pre Bid meeting shall be held in the office of Superintending Engineer, Mechanica Circle, Srinagar on 16.09.2020 (11:30 hrs) either in person or through virtual meeting.

Uploading: The bidders shall deposit their bids in electronic format on the above web site from 22.09.2020 (10.00 hrs) to 30.09.2020 (15:00hrs) in two (02) covers.

Opening of Bids: The bids received upto due date and time shall be opened on 01.10.2020 at 14.00 hrs or any date convenient to the department in the office of Superintending Engineer, Mechanical Circle,

MHCHD, Srinagar DIPK-5457/20

Business at your finger tips Exclusive premium content, handpicked by our editors Curated newsletters on Markets, Personal Finance, Policy & Politics, Technology, Startups & more \triangle Select 5 companies of your choice to track their news and stock price Preferred invites to Business Standard events BS premium digital at ₹1499/year For details, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in Business Standard Insight Out f bsindia bsindia

ा एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

CIN: L65910HR1982PLC034071 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा फोन: + 91-124-4675500, फैक्स: + 91-124-4370985

ई-मेल : corporate@hbleasing.com, वेबसाइट : www.hbleasing.com

(रू. लाख में)							
क्र.	विवरण	तिमाही	पूर्व वर्ष में	वर्ष			
सं.	1444	समाप्त	संगत तिमाही	समाप्त			
			समाप्त				
		30/06/2020	30/06/2019	31/03/2020			
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित			
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	5.00	-	30.31			
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद मदों से पूर्व)	(3.00)	(9.79)	(1.18)			
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	(3.00)	(9.79)	(1.18)			
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर बाद (अपवाद मदों के बाद)	(3.00)	(9.84)	(1.30)			
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	(3.00)	(9.82)	(1.97)			
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1100.41	1100.41	1100.41			
7.	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर, जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है)	NA	NA	(888.31)			
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु)						
	मूल :	(0.03)	(0.09)	(0.01)			
	तनुकृत :	(0.03)	(0.09)	(0.01)			

(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज को प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही प्रसार प्रकार के अरुपा कर ने स्तिता क्रियाच प्रकार के विश्वास के विश्वास किया कि किया किया किया किया किया किया वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट www.hseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.hbleasing.com पर उपलब्ध है।

(ii) उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 11 सितम्बर, 2020 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

स्थान : गुरूग्राम तिथि : 11/09/2020

आईडीबीआई बैंक लि., एनपीए प्रबंधन समह, प्रथम तल, वीडियोकॉन टावर, ई-1,झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन: 011-6608 3003/4823



इरादतन चूककर्ताओं के बारे में सार्वजनिक सूचना मालिक / पार्टनर / प्रवर्तक / निदेशक / गारंटर का नाम

पता : दोनों निवासी, सी-104 तथा 105 चंदर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011 अन्य पता : सी-642, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी नई दिल्ली—110055



श्री अमोघ सभरवाल

श्रीमती भावना सभरवाल

अनिल गोयल

DIN: 00001938

आईडीबीआई बैंक को प्रभारित सम्पत्तियों का विस्तत विवरण

प्राथमिक प्रतिभूति : कार्यशील पूंजी कंसोर्टियम बैंकर्स के साथ स्टॉक्स तथा बही ऋणों के रूप में कम्पनी की समग्र चालू आस्तियों पर प्रथम समरूप प्रमार।

समपाईविक प्रतिभति (1) कम्पनी के सम्पूर्ण अचल आस्तियों, जिसमें ओखला तथा भिवाड़ी स्थित सम्पत्तियों का साम्यिक बंधक शामिल है पर

(j) सी−41, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज−1, नई दिल्ली स्थित कम्पनी की कार्यालय भूमि और भवन। (ii) 812 / जी 66, इंडस्ट्रियल

एरिया, सैनटेल जोन, भिवाडी, राजस्थान स्थित कम्पनी की फैक्टी भिम और भवन। (iii) ओखला यनिट, नई दिल्ली स्थित अचल (2) गाजियाबाद तथा रूडकी स्थित गारंटरों की सम्पत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार।

(i) श्री इन्द्रजीत सभरवाल के नाम में सी–104 तथा 105, चंदर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित आवासीय मकान

(ii) श्री इन्द्रजीत सभरवाल एवं श्रीमती भावना सभरवाल के नामों में खसरा नंबर 1101 तथा 1102, ग्राम सलेमपुर, राजपूतान, परगना, भगवानपुर, रूड़की अर्थात यूनिट 1 एवं यूनिट 2 स्थित भूमि और भवन।

1. संघ बैंकर्स के मध्य प्रथम समरूप आधार पर कम्पनी की चूकता शेयरों के 30 प्रतिशत का बंधक। 2. 127—ए. प्रथम तल. थापर चैम्बर. नई दिल्ली स्थित अचल सम्पत्ति पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार.

एतदद्वारा जनसाधारण को वृहत पैमाने पर अधिसचित किया जाता है कि उपरोक्त उधारकर्ता / प्रवर्तक / गारंटर, उक्त उधारकर्ता को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के संबंध में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को मूल, ब्याज और अन्य राशियों की किश्तें चुकाने में असफल रहा है और उपेक्षा की है। उधारकर्ता / गारंटरों से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पक्ष में उनके द्वारा निष्पादित विभिन्न ऋण दस्तावेजों के निबन्धनों के अनुसार दिनांक 01–07–2010 तक बकाया राशि रू. 112.07 कर (मात्र एक सौ बारह करोड़ रुपये तथा सात पैसा) और उस पर भुगतान की तिथि तक ब्याज और उदभुत प्रभारों सहित चुकाने की मांग की जाती है।

अतः, जनहित में यह सूचना दी जाती है और सावधान किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त उधारकर्ता / गारंटर की उक्त उल्लिखित आस्तियों सहित किसी भी सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करेगा क्योंकि उनसे भारी राशि वसूल की जानी है।

तिथि : 12.09.2020 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत हस्ताक्षरी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, (एनएमजी, दिल्ली)

डीएमआई फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

विक्रय सह नीलामी सूचना

,9,33,80,812 के साथ पठित प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रू. (रूपये नौ करोड़ तैतीस लाख अस्सी हजार आठ सौ बारह मात्र) दिनांक 02 सितम्बर, 2020 तक + ब्याज, लागते इत्यादि प्रतिभृत ऋण की वसली हेत् नीचे उद्घिखि हिणयों के निम्न संपत्तियों के क्रय हेतु निविदा/उद्धरण आमंत्रित करता है। सम्पत्तियां जहां है और जो कुछ है और बिना किसी संसाधान के आधार पर बेची जाएगी। ऋणियों /जमानतदारों / (1) एसएसजी इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, पता- डी-835, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, दिल्ली- 110065,

बंधककर्ताओं के नाम (2) जेपीएस रीनफोर्स्ड प्राईप्स प्राईवेट लिमिटेड, पता- डी-835, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, दिल्ली- 110065 , (3) श्री हरजीत सिंह

साहनी, (4) श्री अर्जुनप्रीत सिंह साहनी, (5) सुश्री पम्मी साहनी, पता- डी-835, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, दिल्ली- 110065

(6) श्री चरणजीत सिंह साहनी, पता- 22/3 लाजपत नगर, चौक, लखनऊ, उत्तरप्रदेश

सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें स्वतंत्र भिम का क्षेत्रफल 4 एकड, खसरा नं, 20 में, किला नं, 2 (8-0), 3 (8 0), 4 (8-0), 5 (8-0), गांव किडावली के राजस्व एस्टेंट के अंतर्गत. तहसील व जिला फरीटाबाट. हरियाणा में स्थित। का विवरण

	(板.) 板.	(ईएमडी)	अंतिम दिनांक व स्थान	दिनांक व स्थान	का समय			
	₹6.							
(₹	30,00,000/- पये तीन करोड़ स लाख मात्र)	रू. 33,00,000/- (रूपये तैतीस लाख मात्र)	28 सितम्बर 2020, समयः सांय 5.00 बजे निविदा जमा कराने का पताः डीएमआई फाईनेंस ग्राईवेट लिमिटेड, 9-10, तृतीय तल, एक्सप्रेम बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, न्यु दिल्ली- 110001 सम्पर्क व्यक्ति- भरत मोहन मुक्कर, टेलीफोन- 9899209040 एवं विवेक राणा, टेलीफोन- 9818648436 एवं अखिल जैन, टेलीफोन- 9911014154		प्रातः 11.30 बजे			
<u>नो</u> त	<u>नोट:</u> प्राधिकृत अधिकारी शीर्ष तीन बोली लगाने वालों के बीच अपने विवेक अनुमति अंतर-से बोली कर सकता है।							

प्रम्पत्तियों का बोलीदाता/इच्छक पार्टीयां सम्पत्तियों का निरीक्षण दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे के मध्य क सकती है। इच्छुक पार्टीयां श्री भरत मोहन मुक्कर, डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड, मो. 9899209040 एवं विवेक राणा, डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड, मो. 9818648436 एवं श्री अखिल जैन, डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड, मो. 9911014154 से सम्पव

नियम एवं शर्तेः इच्छुक पार्टीयां अपनी निविदा सीलबंद कवर के साथ लिफाफे के उपर ("Quotation for Purchase of Properties") के रूप में जमा/भिजव सकती है। (सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें भूमि का क्षेत्रफल 4 एकड़, खसरा नं. 20 में, किला नं. 2 (8-0), 3 (8-0), 4 (8-0), 5 (8-0), गांव किडावली के राजस्व एस्टेट के अंतर्गत, तहसील व जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित)- जमा धरोहर राशि (ईएमडी) पे ऑर्डर/डीडी के द्वारा "डीएमआ

फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड" नई दिल्ली के पक्ष में देय होगी। र्इएमडी जमा कराने में रूचि न रखने पर सफलतम बोलीदाता के असफल होने पर ईएमडी जब्त की जाएगी

निविदाएं / बोलियां किसी भी संबंध में अपेक्षित इंएमडी के लिए डीडी / पीओ के साथ अहस्ताक्षरित या अधुरी है तो प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर खारिज कि

जाने के लिए उत्तरदायी हैं। उपरोक्त संपत्तियां उक्त वर्णित आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी।

सफलतम बोलीदाता को 25 प्रतिशत राशि ईएमडी को शामिल करते हुए उसी दिन तुरंत "डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड" नई दिल्ली के पक्ष में पे ऑर्डर/डीडी वे

जरिये जमा करानी होगी शेष 75 प्रतिशत राशि 15वे दिवस को या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके विवेकाधीन सहमति से लिखित में की गई समयावृद्धि के भीतर जम करानी होगी। प्राधिकत अधिकारी लिखित में भगतान समय के लिए स्वयं के विवेकाधीन होगा। कथित दिनांक को भगतान करने में असफल होने पर ईएमडी एवं तब तक सभी भुगतान बिना सूचना के जब्त कर लिए जाएंगे और संपत्तियों की पुनः बिक्री की जाएगी।

ऐसे सभी भुगतान केवल डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में तैयार किए गए पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किए जाएंगे सफलतम बोलीदाता कानूनी / बिक्री के लिए देय शुल्क / प्रभार जैसे कि स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, कर, लेवी, इत्यादि लिवांड के अनुसार लागू विधि खर्चे वह

करने होंगे। प्राधिकत अधिकरी सरकारी किसी भी शल्क, ग्रहणाधिकार, अतिक्रमण, संपत्ति कर या बिक्री के तहत संपत्तियों के संबंध में किसी अन्य देय के लिए जिम्मेदार न होगा। डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड - तृतीय तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, न्यु दिल्ली- 110002 से सामान्य कार्यघण्टों के दौरान निविदा फ प्राप्त कर सकते है। निविदा फार्म के साथ, इच्छुक बोलीदाता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी पेन कार्ड की प्रति और अपना पहचान प्रमाण एवं आवासीय प्रम

जैसे आधार कार्ड अथवा पासपोर्ट अथवा इलेक्शन कमीशन कार्ड अथवा ड्राईविंग लाइसेंस भी सलंग्न करना होगा।

उक्त संपत्ति के संबंध में सभी बकाया और बकाया राशि अर्थात नगर निगम कर, रखरखाव, बिजली, जल कर या अन्य सभी बकाया राशि सहित सफल बोलीटाता

क्रेता द्वारा भगतान किया जाएगा।

।O. प्राधिकत अधिकरी प्रस्ताव में सधार के लिए उच्चतम बोली लगाने वाले के साथ बातचीत करने का अधिकार और किसी भी कारण को बताए बिना नीलामी / बिढ़

। 1. बिक्री डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पृष्टि के अधीन है 12. बिक्री प्रमाणपत्र को पंजीकत करने के लिए सफल बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण की दिशा में सभी खर्चों को वहन करेगा।

13. यदि ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की बकाया राशि का भुगतान नीलामी की तारीख / बिक्री की पुष्टि से पहले करते हैं, तो

4. प्राधिकृत अधिकरी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी में, उपर्युक्त संपत्तियों पर कोई अन्य प्रभार ज्ञात नहीं है 15. बोली हस्तांतरणीय नहीं है। 16. डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड या उसका कोई भी कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नह

. 17. यह प्रकाशन सूचना ऋणियों, जमानतदारों और बंधककर्ताओं को 15 दिनों का नोटिस भी है, जो उपरोक्त दिनांकों को बिक्री के इरादे से रखी गई बकाया पूरी नहीं होने के संबंध में हैं। यदि ऋणियों, जमानतदारों और बंधककर्ताओं के पास निजी बिक्री या उद्धरण द्वारा किसी व्यक्ति को संपत्तियों को बेचने का ऐसा कोई प्रस्ताव है, तो दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को सचित किया जा सकता है।

. सरफेसी अधिनियम. 2002 के अंतर्गत वैधानिक 15 दिवस की विक्रय सचन ऋणियों. जमानतदारों और बंधककर्ताओं को बोली लगाने की दिनांक से पूर्व कल बकाया राशि का भगतान करने के लिए सचित किया जाता है, असफल होने पर प्रतिभूत विषया, निर्माण की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज, लागत सहित आपसे वसूल की जाएगी। (प्राधिकृत अधिकारी) नामः भरत मोहन मुक्क स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 12.09.2020

स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर

मुंबई, 11 सितंबर

•द्योग संवर्धन एवं आंतरिक

(डीपीआईआईटी) स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 में गुजरात को सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बताया है। राज्य ने लगातार दुसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। कर्नाटक एवं केरल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हैं।

डीपीआईआईटी की ओर से आज जारी की गई प्रस्तुति के मुताबिक व्यवधान वाले क्षेत्रों व आईक्रियेट की अवधारणा को चिह्नित करने की अतिसक्रिय व्यवस्था और 'स्टुडेंट स्टार्टअप और नवोन्मेष' नीति की वजह से गुजरात को पहले स्थान पर बने रहने में मदद मिली। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार को शीर्ष स्थान मिला है। कुल 22 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कवायद में हिस्सा लिया।

भारत विश्व में तीसरा सबसे बडा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां स्टार्टअप इंडिया

डीपीआईआईटी रैंकिंग में राज्य

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

- गुजरात
- श्रेष्ठ प्रदर्शन ■ कर्नाटक, केरल

अग्रणी राज्य

 ■ बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, चंडीगढ

संभावना वाले राज्य

पहल के तहत 36,000 स्टार्टअप

की पहचान की गई है। नई दिल्ली में स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट 2019 जारी करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि इन घोषणाओं से केंद्र सरकार, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आगे प्रोत्साहन की लंबी राह बनेगी। इससे प्रतिस्पर्धी संघवाद की धारणा को बल मिलेगा और राज्यों, उद्यमितों व अन्य हिस्सेदारों के बीच तालमेल को प्रोत्साहन

नगालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड उभरते राज्य ■ आंध्र प्रदेश, असम,

छत्तीसगढ़, दिल्ली,

और उत्तर प्रदेश

■ हरियाणा, झारखंड,

हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, तिमलनाडू

> उन्होंने कहा, 'भारतीय उद्योग. निवेशक, ज्यादा पुंजी वाले व्यक्ति (एचएनआई), म्युचुअल और पेंशन फंड भी वित्तपोषण के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप की मौजुदा यात्रा में हिस्सा लेने पर विचार करेंगे। स्टार्टअप की ओर से तमाम बेहतर विचार आ रहे हैं,

मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने के लिए 3 सिफारिशों को लेकर भी जोर

जहां तमाम निवेशों को जगह

मिलेगी, जो संभवत: इच्छित

परिणाम नहीं पाते हैं।'

दिया। नवोन्मेष व नई तकनीक प्रक्रिया की फिर से डिजाइन तैयार करने. नियामकीय व पुराने व्यवहार में सुधार और अंतिम में व्यक्ति केंद्रित विचारों पर काम करके उत्पादों की नए सिरे से परिकल्पना की जा सकती है।

राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 को 7 व्यापक सधारों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें संस्थागत समर्थन, अनुपालन सरल करने, सार्वजनिक खरीद मानकों में ढील, इनक्यूबेशन सपोर्ट, सीड फंडिंग सपोर्ट, वेंचर फंडिंग सपोर्ट और जागरूकता व पहुंच सहित 30 कार्य बिंदु शामिल हैं।

मुल्यांकन समिति में स्टार्टअप से जुड़े स्वतंत्र विश्लेषकों ने विभिन्न मानकों पर मिली प्रतिक्रिया का विस्तार से आकलन किया है। तमाम मानकों में लाभार्थियों से राय ली गई है, जिसके लिए 60,000 से ज्यादा कॉल 11 विभिन्न भाषाओं में की गई, जिससे कि कार्यक्रमों को लागू करने के स्तर पर लाभार्थियों से सीधे जुड़ा जा सके।

आर्थिक स्वतंत्रता की रैंकिंग में भारत फिसला

भारत 2018 में आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 79वें स्थान से खिसककर 105वें स्थान पर पहंच गया है। एक संस्था सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी और कनाडा के फ्रास्टर इंस्टीट्यट की ओर से 162 देशों में कराए गए सर्वे से यह जानकारी मिली है।

इसमें कोविड का कोई असर शामिल नहीं है, जो 2020 में होगा। इकोनॉमिक फ्रीडम आर्थिक सूचकांक) के मुताबिक भारत के लिए बड़ी निराशा 'फ्रीडम टु ट्रेड इंटरनैशनली' के मानकों के हिसाब से आई है, जिसमें भारत 139 वें स्थान पर पहुंच गया है, जबिक 2017 में 137वें स्थान पर था। इसके अलावा 'नियमन' के मामले में भारत का स्थान 2018 में 122वां है, जबकि एक साल पहले 114वें स्थान पर था।

मूडीज, केयर रेटिंग्स ने घटाए जीडीपी अनुमान

मिलेगा।'

अरूप रॉयचौधरी नई दिल्ली, 11 सितंबर

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आज वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में संकुचन का अनुमान घटाकर 11.5 प्रतिशत कर दिया है, जबकि पहले 4 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया था। अप्रैल-जून के जीडीपी में गिरावट के आधिकारिक आंकडे जारी होने के बाद मुडीज ने यह अनुमान जारी किए हैं, जिसमें कारोबार में उम्मीद से ज्यादा सुस्ती और जीडीपी में संकुचन का अनुमान लगाया गया है

वहीं घरेल रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने भी वित्त वर्ष 21 के लिए वास्तविक जीडीपी में 8 से 8.2 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि पहले 6.4 प्रतिशत गिरावट का अनमान

मूडीज और केयर रेटिंग का अनुमान अन्य घरेलू व वैश्विक रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत के जीडीपी वृद्धि के अनुमान में तेज कटौती किए जाने के बाद सामने आया है। फिच रेटिंग ने 8 सितंबर प्रतिशत संकचन का अनमान लगाया था, जबकि पहले 5 प्रतिशत की गिरावट का अनमान लगाया गया था। वहीं फिच की मालिकाना वाली भारतीय इकाई

इंडिया रेटिंग ने भारत की वास्तविक जीडीपी में 11.8 प्रतिशत की तेज गिरावट का अनुमान लगाया है।

गोल्डमैन सैक्स ने पहले 11.8 प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगााय था, अब 14.8 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत

का साख परिवेश निचली वृद्धि, ऊंचे कर्ज तथा कमजोर वित्तीय प्रणाली से प्रभावित हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये जोखिम और बढ़े हैं। मूडीज ने कहा, 'अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली में गहरे दबाव से देश की वित्तीय मजबूती में और गिरावट आ सकती है। इससे साख पर दबाव और बढ सकता है।' मुडीज ने कहा कि उसका अनुमान कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी। मुडीज ने कहा है कि हालांकि अगले वित्त वर्ष भारतीय 2021-22 अर्थव्यवस्था 10.6 प्रतिशत की वद्धि दर्ज करेगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि वृद्धि में तेज गिरावट की वजह से सरकार का राजस्व को भारत की जीडीपी में 10.5 हमले के कारण राजकोषीय व्यय बढेगा और इससे सरकार के राजकोषीय घाटे पर असर पढेगा। मडीज ने कहा है कि चाल वित्त वर्ष में भारत का राजकोषीय घाटा 12 प्रतिशत रह सकता है।

मुआवजे पर टकराव की स्थिति

इंदिवजल धस्माना नई दिल्ली, 11 सितंबर

ऐसा लगता है कि राज्य अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जीएसटी प्रणाली के तहत मुआवजे को लेकर केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ काफी मुखर हैं।

मोतीलाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषण के मुताबिक 14 राज्यों के कुल प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 18.2 फीसदी की गिरावट आई है। जबकि कुल खर्च में महज 2.7 फीसदी का इजाफा हुआ है। देश में सभी राज्यों की कुल हिस्सेदारी में इन राज्यों की हिस्सेदारी 63 फीसदी है। प्राप्ति संबंधी विवरण से पता

चलता है कि इस दौरान राज्यों की कल प्राप्ति में 32.1 फीसदी (केंद्र का हस्तांतरण सहित) और गैर कर राजस्व प्राप्तियों में 27 फीसदी की कमी आई। इसके उलट पहली तिमाही में

केंद्र से अनुदान में 56 फीसदी का इजाफा हुआ। राज्यों के अपने करों के भीतर, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्कों में इस दौरान 58 फीसदी का संकुचन आया। राजस्व खर्च में 9.7 फीसदी की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ राज्यों

पुंजीगत व्यय में तिमाही के दौरान 43.5 का संकुचन हुआ। यह पिछली पांच तिमाहियों में लगातार चौथा संकुचन है।

आगे के विवरण से पता चलता

2020-21 की पहली तिमाही में बजट अनुमान के प्रतिशत में राजकोषीय घाटा

राज्य	घाटा	राज्य	घाटा			
झारखंड	-16	उत्तर प्रदेश	26			
ओडिशा	-6	छत्तीसगढ़	31			
हिमाचल प्रदेश	-5	 तमिलनाडु	32			
उत्तराखंड	-5	हरियाणा	47			
कर्नाटक	18		53			
मध्य प्रदेश	18	केरल	68			
गुजरात	19	आंध्र प्रदेश	69			
योवः यीर्वशार्वयो योगाची राज्य राज्यावेज विज् संवालस						

स्रोतः सीईआईसी, सीएजी, बजट दस्तावेज, वित्त मंत्रालय, मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज

है कि ब्याज भुगतान में जहां 24 फीसदी का इजाफा हुआ वहीं वेतन और लागतों (12 राज्यों पर आधारित) में वृद्धि 2.3 फीसदी के साथ मामुली रही। पेंशनों में महज 0.6 फीसदी का इजाफा हुआ।

राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि 14 राज्यों में से चार राज्य झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड को अभी भी उस तिमाही में राजकोषीय अधिशेष प्राप्त हुआ। वहीं केरल और आंध्र प्रदेश में राजकोषीय घाटा बजट अनमान का करीब 70 राज्यों का राजकोषीय घाटा वित्त के ऋण और अग्रिम सहित फीसदी रहा और तेलंगाना में यह वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 50 फीसदी से अधिक रहा।

> के वित्त को जोडते हैं तो उस फीसदी की कमी आई जबकि केंद्र संकेत मिलता है।'

सरकार की ओर से अनुदानों के लिए समायोजित करने के बाद सरकारों द्वारा कुल खर्च में मामुली 7.1 फीसदी का इजाफा हुआ। समग्र तौर पर केंद्र की ओर से

जहां पुंजीगत व्यय जिसमें ऋण और अग्रिम शामिल है, में उस तिमाही में 40 फीसदी का इजाफा हआ। केंद्र और 14 राज्य सरकारों के संयुक्त पंजीगत व्यय में महज 2 फीसदी की वृद्धि हुई। मोतीलाल ओसवाल ने

रिपोर्ट में कहा, 'इसलिए, चुंकि पहले ही बजट अनुमान के 37 अंत में जब केंद्र और 14 राज्यों फीसदी हो चुका है, इससे आगामी महीनों में राज्यों के खर्च तिमाही में कुल प्राप्तियों में 39.4 करने की सीमित क्षमता का

डिजिटल हेल्थ मिशन से सस्ता हो सकता है स्वास्थ्य बीमा

बल्कि उत्पादों के बेहतर मल्य

सुब्रत पांडा मुंबई, 11 सितंबर

नैशनल डिजिटल हेल्थ मिशन न केवल पॉलिसीधारकों के लिए एक वरदान साबित होगा बल्कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के बेहतर मल्य निर्धारण में बीमाकर्ताओं के लिए भी समान रूप से लाभदायक साबित होगा। सरकार की ओर से घोषित इस मिशन का कार्य नागरिकों का डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मिशन को अपनाने पर स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के दामों में कमी आ सकती है।

स्वास्थ्य बीमा पर एसोचैम की राष्ट्रीय ई-बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) में गैर जीवन (नॉन लाइफ) बीमा की सदस्य टीएल अलमेलु ने कहा, 'सरकार ने हाल ही में नैशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की है और बीमा कर्ताओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। इसके माध्यम से वह पॉलिसीधारकों को अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड इस प्लेटफार्म पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे न केवल पॉलिसीधारकों को मदद मिलेगी

निर्धारण में बीमा उद्योग को भी लाभ होगा।' फिलहाल स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का मृल्य मुख्य तौर पर पहले के अनुभव के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सभी बीमांकिक गणना ऐतिहासिक आंकडों पर आधारित होता है। और, बीमा कंपनियों के पास उत्पाद की कीमत निर्धारण के समय पर हमेशा सारे आंकडे तैयार नहीं होते हैं जिससे कई बार बीमाकर्ताओं के लिए घाटे का अनुपात अधिक हो जाता है। सामान्य बीमा क्षेत्र की ज्यादातर बीमा कंपनियां जोखिम अंकन

लाभों को लेकर जूझ रही हैं जिसमें जनसांख्यिकीय और जिसकी प्रमुख वजह कीमत निर्धारण का मसला है।

अलमेलु ने कहा, पॉलिसीधारक प्लेटफार्म पर अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करते हैं तो इस स्थिति को बदला जा सकता है। बीमाधारकों को ऐसा करने से लाभ होगा क्योंकि कीमतें ज्यादा वास्तविकता पर आधारित होंगी और संभवत इस में कमी आएगी।'

नैशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र कार्ड तैयार करना है

मुख्य अनुपालन अधिकारियों

स्थान, परिवार/संबंध और संपर्क की जानकारी होगी। इससे व्यक्ति की पहचान करने, उसका सत्यापन करने और उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाएगा।

अलमेलु ने यह भी कहा कि मौजूदा महामारी के कारण भारतीय बाजार में स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी बहुत कम समय में 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो गई है। बाजार हिस्सेदारी में यह उछाल मार्च और जुलाई के बीच की अवधि में आई है।

बीएस सूडोकू 3842

5

परिणाम संख्या 3841



की नियुक्ति के दिशानिर्देश बीएस संवाददाता / एजेंसियां

मुंबई, 11 सितंबर

अनुपालन में एकरूपता की संस्कृति लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) की नियुक्ति के मानक तय किए हैं, जिनका कार्यकाल कम से कम 3 साल होगा। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होगा और जनरल मैनेजर या उसके ऊपर के पद के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

जोखिम प्रबंधन को लेकर एकरूपता सुनिश्चित करना है। रिजर्व बैंक की ओर से आज जारी अधिसूचना के अनुसार सीसीओ महाप्रबंधक स्तर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) से दो स्तर से अधिक नीचे का अधिकारी नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस तरह के स्वतंत्र अनुपालन कामकाज की अगुवाई सीसीओ करेगा। सीसीओ का चयन एक उचित 'अनुकूल और सीसीओ की नियुक्ति के उपयुक्त' चयन प्रक्रिया से होगी।

दिशानिर्देश तय करने का मकसद

बैंकिंग उद्योग में अनुपालन और

7 4 8 6 5 2 1 3 9



एक से लेकर नौ

तक की संख्या भरें।